

PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Do not wring the product



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not Iron.



Do not bleach.



Close hook loop fasteners before washing.

tynor

Hernia Belt

हर्निया बेल्ट

Cinturón Para Hernias

Ceinture de la hernie

حزام الفتق

REF A 16



EC REP

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number

tynor

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali-160 055, (Pb) India
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO
9001



W.H.O.
G.M.P.

ISO
13485



US FDA
registered

www.tynorindia.com

UM-A16-18-2

USER MANUAL

Hernia Belt

English

INTENDED USE :

Tynor Hernia Belt offers a gentle and constant relief from reducible inguinal hernia by providing adjustable and comfortable pressure to the hernia. On wearing the belt the occurrence of herniation gets eliminated. Tynor Hernia Belt is available in skin color, can be worn inconspicuously under clothing.

CONSTRUCTION:

Tynor Hernia Belt is made of out of soft and skin friendly materials. The moulded and removable foam hernia pads are designed to provide gradual pressure around the affected area with focused pressure on the hernia, which pushes the inguinal hernia back. Velcro closures offer flexibility in both waist and perineal (leg) straps. They can be easily adjusted for a customized fitting and to achieve the desired pressure of the pads. Pads can be removed to treat a single hernia.

APPLICATIONS:

- Provide a constant, and comfortable pressure to reduce the hernia by gently pushing it back.
- Inguinal hernia treatment (single or double)
- Prevent Hernia relapse



CAUTION/RECOMMENDATION :

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.

INSTRUCTIONS: [1]

- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired sensation
 - Impaired blood flow
 - Allergy rash or itching
 - Pain increases or persists
- Consult your doctor in case of concurrent use with any other medical device.
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.
- Adjust padding and strapping for a secure and comfortable fitting.

हर्निया बेल्ट

Hindi

उपयोग :

टाइनॉर हर्निया बेल्ट हर्निया पर समायोजित करने योग्य और आरामदायक दबाव प्रदान करके उरुसंधि के (इंग्वाइनल) हर्निया से शांत और निरंतर राहत प्रस्तुत करती है। यह बेल्ट पहनने पर बहिःसरण (हर्नियेशन) होना बंद हो जाता है। टाइनॉर हर्निया बेल्ट त्वचा के रंग में उपलब्ध है, जिसे कपड़ों के नीचे नज़र न आने वाले तरीके से पहना जा सकता है।

निर्माण:

टाइनॉर हर्निया बेल्ट मुलायम और त्वचा के अनुकूल सामग्री से बनी होती है। आकार में ढले और निकाले जाने वाले फोम के हर्निया पैड हर्निया पर केंद्रित दबाव के साथ प्रभावित उस हिस्से के आसपास धीमा-धीमा दबाव प्रदान करने के लिए तैयार किया गए हैं, जो इंग्वाइनल हर्निया को पीछे धकेलते हैं। बेल्ट को क्लोज़र कमर और मूलाधारीय (पैर के) दोनों की पट्टियों में लचीलापन प्रदान करते हैं। इन्हें अनुकूलित फिटिंग के लिए और पैड्स के बाँधित दबाव को हासिल करने के लिए आसान से समायोजित किया जा सकता है। एकल हर्निया के उपचार के लिए पैड्स को हटाया जा सकता है।

अनुप्रयोग :

- धीरे-धीरे इसे पीछे की ओर दबाकर हर्निया को कम करने के लिए स्थिर और आरामदायक दबाव प्रदान करें।
- जाँघ के पास हर्निया के उपचार (सिंगल या डबल) के लिए
- हर्निया के पुरानी स्थिति में वापस आने से रोकने के लिए



चेतावनी/सलाह:

- एक योग्य चिकित्सक की सलाह पर उपयोग करें।

निर्देश: [1]

- इन सतिथियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें:
 - दुर्बलता का अनुभव
 - रक्त प्रवाह में कमी
 - एलर्जी से लाल चक्के या खुजली
 - दर्द बढ़ता है या बना रहता है
- किसी अन्य मेडिकल डिवाइस के साथ - साथ उपयोग की स्थिति में अपने चिकित्सक की सलाह लें।
- डिवाइस के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- बॉक्स पर बर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
- सुरक्षित और आरामदायक फिटिंग के लिए गद्दी और दीर्घकाय समायोजित करें।

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें Comment utiliser كيفية الاستخدام

1.



- Measure waist & select size of the belt from size chart .
- कमर का माप लें और साइज़ चार्ट से बेल्ट का साइज़ चुनें।
- Mida la cintura y seleccione la talla del cinturón basándose en el cuadro de tallas.
- Mesurez la resserrement & sélectionnez la taille de la ceinture à partir du tableau des tailles.
- قياس الخصر وتحديد حجم الحزام من خلال الرسم البياني

2.



- Hold main body of the belt against the abdomen, positioning the pads against the hernia.
- बेल्ट के मुख्य हिस्से को पेट पर रखें, पैड हर्निया के सामने होने चाहिए।
- Sujete el cuerpo principal del cinturón contra el abdomen, colocando las almohadillas contra la hernia.
- Maintenez le corps principal de la ceinture contre l'abdomen, en positionnant les coussinets contre la hernie.
- أمسك الطرف الوسطي من الحزام في وضعية ضد البطن، مع مطابقة الوسادات على الفتح

3.




- Abdominal strap is wrapped around the waist, and tied to the main body to a comfortable compression with the help of hook loop rejoinders.
- पेट की पट्टी कमर पर लपेटे जाती है, और आरामदायक दबाव के लिए हुक लूप रीजॉइंडर्स की मदद से मुख्य हिस्से से कसी जाती है।
- La correa abdominal se gira alrededor de la cintura y se sujeta al cuerpo principal para obtener una compresión cómoda con la ayuda de las sujeciones de Velcro.
- La sangle abdominale est enroulée autour de la taille, et attachée au corps principal à une compression confortable avec l'aide des répliques de boucle de crochet.
- قم بتلفيف حزام البطن حول الخصر، وربطه على وسط الجسم من أجل ضغط مريح مع الاستعانة بحلقات الربط

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें Comment utiliser كيفية الاستخدام

4.



- Leg (perineal) straps are taken to the front through the perineum and attached to loop on the main body to get the required pressure on the hernia.
- हर्निया पर वांछित दबाव हासिल करने के लिए पैर (मूलाधारीय) की पट्टियां नीचे से घुमाकर सामने लाई जाती हैं और मुख्य हिस्से के छल्ले यानी लूप पर लगा दी जाती हैं।
- Las correas de la pierna (peritoneales) se llevan hacia la parte delantera a través del peritoneo y se fijan al bucle y al cuerpo principal para obtener la presión adecuada en la hernia.
- Les sangles des jambes (périnéales) sont prises à l'avant à travers le périnée et attachées à la boucle sur le corps principal pour obtenir la pression requise sur la hernie
- أشرطة الساق (العجان) توضع في الجهة الأمامية من خلال العجان وترتبط على وسط الجسم للحصول على الضغط المرغوب على الفتح.